

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 606]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 नवम्बर 2010—अग्रहायण 3, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्र. 7025-380-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (निरसन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27, सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 27 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH RAJYA BHUMI VIKAS NIGAM (NIRSAN)
VIDHEYAK, 2010.

A Bill to repeal the Madhya Pradesh Rajya Bhumi Vikas Nigam Adhiniyam, 1976.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Bhumi Vikas Nigam (Nirsan) Adhiniyam, 2010.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires :—

- (a) “appointed day” means the date of commencement of this Act under sub-section (2) of Section 1;
- (b) “Nigam” means the Madhya Pradesh Rajya Bhumi Vikas Nigam established under Section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Bhumi Vikas Nigam Adhiniyam, 1976 (No. 2 of 1977).

Repeal and Saving.

3. (1) On the appointed day the Madhya Pradesh Rajya Bhumi Vikas Nigam Adhiniyam, 1976 (No. 2 of 1977) shall stand repealed and the Nigam shall stand dissolved.

(2) All assets and liabilities of the Nigam on the appointed day shall stand vested in the State Government and the State Government shall have all powers necessary to take possession, recover and deal with such assets and discharge such liabilities.

(3) The repeal shall not affect,—

- (a) any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the act so repealed; or
- (c) the previous operation of the Act so repealed or consequences of any thing already done or suffered thereunder; or
- (d) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the Act so repealed; or
- (e) any legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability as aforesaid and any such legal proceedings or remedy may be continued or enforced as if this Act had not been passed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government has decided to dissolve the Madhya Pradesh Rajya Bhumi Vikas Nigam due to the following reasons, namely :—

- (1) There was no activity in Nigam from past many years as the operations were clogged due to huge losses suffered.
- (2) Huge administrative and other cost without performance.
- (3) To reduce the burden on the Government exchequer from feeding the non-performing Nigam and to enable the government for efficient and economic utilization of the idle assets and resources of the Nigam into more profitable avenues.
- (4) To discharge the mounting liabilities of creditors and lenders of the defunct Nigam.

2. Due to the aforesaid reasons, it has been decided to repeal the Madhya Pradesh Rajya Bhumi Vikas Nigam Adhiniyam, 1976 (No. 2 of 1977).

3. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 16th November, 2010.

DR. RAMKRISHNA KUSMARIYA
Member-in-Charge.